

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 794]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 नवम्बर 2019 — कार्तिक 30, शक 1941

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2019

आदेश

क्रमांक एफ-56-1/तीन(दो)/न.पा./रिट.ऑफि.नियुक्ति/2019/2357.— (1) छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 12 (3) के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर की नगरपालिका के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) अर्थात् जिला कलेक्टर, पदेन रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) है।

(2) जिला मुख्यालय पर की नगरपालिका को छोड़कर प्रत्येक जिले की शेष नगरपालिकाओं के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 13 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-1/रानिआ/न.पा./रिट.ऑफि.नियुक्ति/09/2101 दिनांक 29 नवंबर 2009 को अधिक्रमित करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रकार की नगरपालिका के लिए कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) नियुक्त करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को प्राधिकृत करता है।

(3) राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 14 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में, उल्लिखित प्रकार की नगरपालिकाओं के लिए सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों में से किसी/किन्हीं भी अधिकारी/अधिकारियों को कॉलम (3) में उल्लिखित रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) की सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) के रूप में नियुक्त करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को प्राधिकृत करता है :-

सारणी

क्रमांक	नगरपालिका का प्रकार	रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) का पदनाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) के पद पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों के पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(I) जिला मुख्यालय के नगरपालिक निगम	कलेक्टर (पदेन)	अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/आयुक्त, नगरपालिक निगम/तहसीलदार/अधीक्षक, भू-अभिलेख
	(II) जिला मुख्यालय के बाहर के नगरपालिक निगम	अपर कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/सहायक कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/आयुक्त, नगर पालिक निगम/तहसीलदार/अपर तहसीलदार

(1)	(2)	(3)	(4)
	(III) जिला मुख्यालय के बाहर के नगरपालिक निगम (वार्ड के उप चुनाव के मामले में)	संयुक्त कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ डिप्टी कलेक्टर	डिप्टी कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ आयुक्त, नगरपालिक निगम / तहसीलदार/ अपर तहसीलदार
2.	(I) जिला मुख्यालय के नगरपालिका परिषद्	कलेक्टर (पदेन)	अपर कलेक्टर/ संयुक्त कलेक्टर/ सहायक कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी/ तहसीलदार/ अधीक्षक, भू-अभिलेख
	(II) जिला मुख्यालय के बाहर की नगरपालिका परिषद्	अपर कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ संयुक्त कलेक्टर/ सहायक कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी/ अधीक्षक, भू-अभिलेख
	(III) जिला मुख्यालय के बाहर के नगरपालिका परिषद् (वार्ड के उप चुनाव के मामले में)	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार	अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार / मुख्य नगरपालिका अधिकारी
3.	(I) जिला मुख्यालय की नगर पंचायत	कलेक्टर (पदेन)	अपर कलेक्टर/ संयुक्त कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ डिप्टी कलेक्टर/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी/ अधीक्षक, भू-अभिलेख
	(II) राजस्व अनुभाग के मुख्यालय वाली नगर पंचायत	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ तहसीलदार/ अपर तहसीलदार	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी
	(III) राजस्व अनुभाग के मुख्यालय के बाहर की नगर पंचायत	सहायक कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर/ तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ अधीक्षक, भू-अभिलेख	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी
	(IV) राजस्व अनुभाग के मुख्यालय के बाहर की नगर पंचायत (वार्ड के उप चुनाव के मामले में)	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अपर तहसीलदार/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी/ नायब तहसीलदार

हस्ता./-

(जिनेविवा किण्डो)

सचिव.